

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- खभारत ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 418 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड व्यापारिक निर्यात किया है।
- चालू वित्त वर्ष में 21 मार्च तक भारत ने गेहूं का निर्यात कुल 70.30 लाख टन किया है, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश को और इसके बाद श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है।
- भारतीय चीनी मिल संगठन के अनुसार, मौजूदा बाजार वर्ष 2021-22 में मार्च तक चीनी उत्पादन 309.87 लाख टन तक पहुंच गया है जो पिछले साल की समान अवधि के 278.71 लाख टन की तुलना में अधिक है, जबकि सितंबर में समाप्त बाजार वर्ष 2021-22 में निर्यात 85 लाख टन हो सकता है।
- 2021-22 में समुद्री और बागवानी उत्पादों सहित भारत के कृषि उत्पादों का कुल निर्यात वार्षिक आधार पर 20% बढ़कर 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- चिली की सरकारी कंपनी कॉपर कमीशन (कोचिलको) के अनुसार, चिली का तांबा उत्पादन

- फरवरी में 7.5% कम होकर 394,700 टन रह गया।
- चिली के केंद्रीय बैंक के अनुसार, दुनिया के शीर्ष तांबा उत्पादक ने मार्च में तांबे का कुल निर्यात 4.95 अरब डॉलर का किया है।
- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) का टर्नओवर वित्त वर्ष 2021-22 में 38% की वृद्धि के साथ 1,02,035 मिलियन यूनिट हो गया है।
- पर्थ टकसाल ने मार्च में दुनिया भर में 121,997 ट्रॉय औंस (ऑउंस) भौतिक सोने के उत्पादों की बिक्री की है जो पिछले महीने के 72,651 ट्रॉय औंस के से 68% की वृद्धि है।
- यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल के 2 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत की भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने व्यापारी ट्रेडिगुरा से मई में लोडिंग के लिए 2 मिलियन बैरल रूसी यूरेल खरीदा है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.04.22	07.04.22	बदलाव (%)
धनिया	11796.00	12860.00	9.02%
हल्दी	9224.00	9768.00	5.90%
जौ	3000.00	3162.50	5.42%
बाजरा	2152.00	2200.00	2.23%
कपास	2171.00	2213.00	1.93%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.04.22	07.04.22	बदलाव (%)
कैस्टर	7434.00	7010.00	-5.70%
कैस्टर ऑयल	1485.50	1419.50	-4.44%
स्टील	58330.00	56180.00	-3.69%
कॉटनऑयलसीडकेक	3196.00	3130.00	-2.07%
गेहूं	2255.00	2216.00	-1.73%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.04.22	07.04.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	437.50	476.70	8.96%
कॉटन	42150.00	43580.00	3.39%
मेंथा ऑयल	1102.50	1129.60	2.46%
निकल	2447.80	2464.30	0.67%
सोना	51435.00	51681.00	0.48%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.04.22	07.04.22	बदलाव (%)
रबर	17773.00	17070.00	-3.96%
कच्चा तेल	7559.00	7278.00	-3.72%
जिंक	356.10	349.15	-1.95%
एल्युमीनियम	280.60	276.65	-1.41%
लेड	187.00	185.70	-0.70%

## साप्ताहिक समीक्षा

पिछले हफ्ते सीआरबी इंडेक्स की तेजी पर रोक लग गई और सीमित बिकवाली के कारण 310 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। युद्ध, चीन में तालाबंदी, फेड की घोषणा आदि बाजार के लिए प्रमुख घटनाक्रम थे। बेस मेटल में सिर्फ तांबा में ही कुछ खरीदारी हुई। बाकी में मामूली गिरावट देखी गई। फरवरी में चिली में तांबे का उत्पादन 7.5% गिरकर 394,700 टन रह गया है। एल्युमीनियम की कीमतों में उच्च स्तर से गिरावट हुई। चीन में मौजूदा लॉकडाउन नीतियों के कारण कमजोर मांग और प्राथमिक एल्युमीनियम के निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुछ राहत मिली और एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट हुई। चीन ने महीने के दौरान 26,378 टन प्राथमिक एल्युमीनियम का निर्यात किया, जो 2010 के बाद से सबसे अधिक मासिक निर्यात है। ऊर्जा काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में आग लग गई। उपभोक्ता देशों द्वारा आपातकालीन भंडार से तेल जारी करने की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतें तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गईं। लेकिन बाजार में अभी भी कम आपूर्ति को लेकर चिंता बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कम सप्लाई वाले बाजार में कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित 180 मिलियन बैरल तेल जारी करने में से 60 मिलियन बैरल जारी करने पर सहमति व्यक्त की। चार सप्ताह की अवधि में, नेचुरल गैस की कीमतें 340 के निचले स्तर से 484.4 के उच्च स्तर पर पहुंच गईं हैं। कोयले की रिकॉर्ड अधिक कीमतें यूरोपीय संघ को नेचुरल गैस पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रही हैं, जिसने इसकी कीमतों को मदद मिल रही है। हाल के दिनों में घरेलू उत्पादन में गिरावट के अनुमान के कारण अमेरिकी बेंचमार्क नेचुरल गैस की कीमत बुधवार को 6 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से ऊपर उछल गई। बुलियन काउंटर में, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेज वृद्धि के बावजूद सोने और चांदी के अनुपात में कमी हुई है क्योंकि सोने ने चांदी से बेहतर प्रदर्शन किया।

कृषि कमोडिटीज में, बेहतर फंडामेंटल के कारण मसालों की खरीदारी फिर से आकर्षित हुई। जीरा की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई क्योंकि 2021-22 में जीरे का उत्पादन 7.25 लाख टन हुआ था, जबकि 2020-21 में 7.95 लाख टन था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में जीरा निर्यात 19% बढ़कर 14725 टन हो गया, जबकि दिसंबर 2021 में 12385 टन था। धनिया की कीमतों ने अपनी शानदार तेजी जारी रखी और स्टॉकिस्टों एवं मसाला निर्माताओं की बेहतर मांग के कारण 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। मसाला कंपनियों ने इस साल कीमतों में गिरावट का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कीमतों में कोई कमी नहीं दिखी और अब उन्होंने अपनी खरीद शुरू कर दी है जिससे आने वाले हफ्तों में कीमतों को समर्थन मिलेगा। कॉटन की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे 43950 स्तर पर पहुंच गई हैं और अच्छी मांग और कम उपलब्धता के कारण इस सप्ताह सकारात्मक रुख बना रहा। घरेलू कपास की आवक पिछले साल की तुलना में इस सीजन में अब तक 25 फीसदी या 88.95 लाख गांठ कम होकर 238 लाख गांठ रह गई है। उच्च कीमतों के कारण स्थानीय व्यापारियों और तेल मिल मालिकों की ओर से मांग में गिरावट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट हुई। बाजार अप्रैल-मई में भारी आवक की उम्मीद कर रहा है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	01.04.22	07.04.22	(%)
जौ	जयपुर	3,158.00	3,157.50	-0.02
चना	दिल्ली	5,162.60	5,261.10	1.91
धनिया	कोटा	11,000.00	12,265.00	11.50
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	1,405.70	1,414.70	0.64
गुड़	मुजफ्फरनगर	1,168.00	1,152.35	-1.34
ग्वारसीड	जोधपुर	6,550.00	6,600.00	0.76
ग्वारगम	जोधपुर	12,900.00	13,050.00	1.16
जीरा	ऊंझा	21,835.70	22,229.40	1.80
सरसों	जयपुर	7,203.40	7,100.00	-1.44
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,490.00	1,500.00	0.67
सोयाबीन	इंदौर	7,766.00	7,906.00	1.80
हल्दी	निजामाबाद	8,361.10	8,694.45	3.99
गेहूं	दिल्ली	2,252.65	2,208.45	-1.96
कॉटन	कड़ी	42,786.85	43,264.90	1.12
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,329.25	3,289.00	-1.21

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	01.04.22	07.04.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,491.00	3,385.00	-3.04
तांबा	LME	नकद	10,375.00	10,311.50	-0.61
लेड	LME	नकद	2,416.00	2,384.50	-1.30
निकल	LME	नकद	32,107.00	33,689.50	4.93
जिंक	LME	नकद	4,173.50	4,188.00	0.35
सोना	COMEX	जून	1,923.70	1,933.80	0.53
चांदी	COMEX	मई	24.65	24.74	0.37
लाइट क्रूड	NYMEX	मई	99.27	96.03	-3.26
नेचुरल गैस	NYMEX	मई	5.72	6.359	11.17

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	01.04.22	07.04.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	15.82	16.45	3.98
सोया तेल	CBOT	मई	71.20	73.02	2.56
कॉटन	ICE	मई	134.55	133.20	-1.00
सीपीओ	BMD	जून	5,566.00	5,827.00	4.69

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	01.04.22 क्वांटिटी	07.04.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	4150	4150	0
कैस्टर सीड	मी.टन	3228	2498	-730
धनिया	मी.टन	587	912	325
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	76986	78134	1148
ग्वारगम	मी.टन	21585	21883	298
ग्वारसीड	मी.टन	32989	33167	178
मक्का	मी.टन	1089	1089	0
जीरा	मी.टन	5679	6104	425
सोयाबीन	मी.टन	1387	1387	0
हल्दी	मी.टन	2106	2326	220
स्थील लांग	मी.टन	820	0	82

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	01.04.22 क्वांटिटी	07.04.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	6,761	5,771	-990
तांबा	मी.टन	1,830,398	1,578,059	-252339
सोना	किग्रा	857	454	-403
सोना गिनी	किग्रा	14,096	14,096	0
सोना मिनी	किग्रा	628,900	463,500	-165400
लेड	किग्रा	3,683	3,610	-74
निकल	किग्रा	406,177	337,874	-68303
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	64,079	64,761	682
जिंक	मी.टन	500	165	-335

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 01.04.22	स्टॉक की स्थिति 07.04.22	अंतर
एल्युमीनियम	646,850	619,871	-26,979
तांबा	91,400	94,925	3,525
निकल	72,570	73,702	1,132
लेड	38,725	39,325	600
जिंक	141,925	130,425	-11,500



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	22930.00	03.01.22	तेजी	17500.00	21750.00	-	21700.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	6652.00	01.04.22	तेजी	6400.00	6350.00	-	6300.00
<b>NCDEX</b>	<b>कॉटनऑयलसीडकेक</b>	<b>मई</b>	<b>3148.00</b>	<b>04.04.22</b>	<b>मंदी</b>	<b>3200.00</b>	<b>-</b>	<b>3385.00</b>	<b>3400.00</b>
MCX	रबर	अप्रैल	17070.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17850.00	17900.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	1129.60	31.03.22	तेजी	1070.00	1070.00	-	1050.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	15048.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14750.00	-	14700.00
MCX	चांदी	मई	66765.00	07.02.22	तेजी	61900.00	65600.00	-	65500.00
MCX	सोना	जून	51897.00	07.02.22	तेजी	48200.00	51100.00	-	51000.00
MCX	मेटलडेक्स	अप्रैल	21763.00	16.12.21	तेजी	1670.00	20950.00	-	20900.00
MCX	तांबा	अप्रैल	817.00	16.12.21	तेजी	740.00	795.00	-	790.00
MCX	लेड	अप्रैल	185.70	16.12.21	तेजी	186.00	181.00	-	180.00
MCX	जिंक	अप्रैल	349.15	16.12.21	तेजी	275.00	331.00	-	330.00
MCX	निकल	अप्रैल	2464.30	16.12.21	तेजी	1530.00	2250.00	-	2200.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	276.65	16.12.21	तेजी	218.00	271.00	-	270.00
MCX	एनर्जीडेक्स	मई	8338.00	15.02.22	तेजी	7200.00	7850.00	-	7800.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	7278.00	15.02.22	तेजी	6800.00	7050.00	-	7000.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	476.70	15.02.22	तेजी	320.00	435.00	-	430.00

\*07/04/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### सोना ( जून ) एमसीएक्स



### सोना ( जून ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में सोना(जून) कॉन्ट्रैक्ट 07 अप्रैल 2022 को 51897.00 रु पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 56163.00 रु के उच्च स्तर पर था। 28 जनवरी 2022 को 47534.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 50.60 है। 52000.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 50700.00 रु के टारगेट के लिए 51550.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कैस्टरसीड ( मई ) एनसीडीईएक्स



### कैस्टरसीड ( मई ) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड(मई) कॉन्ट्रैक्ट 07 अप्रैल 2022 को 7136.00 रु पर बंद हुआ। 01 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 7642.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 08 अप्रैल 2022 को 7050.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.287 है। 7250.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 6950.00 रु के टारगेट के लिए 7150.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### तांबा ( अप्रैल ) एमसीएक्स



### तांबा ( अप्रैल ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में तांबा (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 07 अप्रैल 2022 को 817.00 रु पर बंद हुआ। 07 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 888.35 रु के उच्च स्तर पर था। 09 फरवरी 2022 को 758.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 56.213 है। 805.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 835.00 रु के टारगेट के लिए 815.00 रु के निकट खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

घरेलू मसाला उद्योगों से मांग में बढ़ोतरी और हाजिर बाजार में कम आवक के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह बढ़कर 7 सप्ताह के उच्चतम स्तर 10000 के स्तर पर पहुंच गईं। मौसम के अनुसार आवक सामान्य है। अब कीमतें 9120 पर अहम सपोर्ट के साथ 10500 रु तक बढ़त दर्ज कर सकती है। वर्तमान में, कीमतें पिछले साल की तुलना में 20% अधिक हैं। नए सीजन की हल्दी बाजार में दस्तक दे रही है और इस समय अधिक निर्यात हो रहा है। 2021/22 सीजन के लिए सरकार के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में हल्दी का उत्पादन 11.76 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 11.24 लाख टन था। वित्त वर्ष 2021/22 के पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 20.1% घटकर 1.27 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.2% अधिक है।

जीरा वायदा (मई) की कीमतें इस सप्ताह दो सप्ताह की तेजी के कारण अब तक के उच्चतम स्तर 23495 पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली के कारण गिरावट के साथ बंद हुई। मसाला उद्योगों से मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह में, कुछ तकनीकी बिकवाली के कारण 23260 पर रजिस्ट्रेंस के साथ 21500 तक गिरावट होने की संभावना है। उड्डा में पुरानी और नई फसल की आवक पिछले वर्ष लगभग 44,000 बैग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 265000 बैग (1बैग=55 किग्रा) रह गई है। नए साल में, जीरा की कीमतों में 38% से अधिक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में कम उत्पादन की खबरों पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 58.3% अधिक हैं। पहले सरकारी अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में जीरे का उत्पादन 7.25 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 7.95 लाख टन उत्पादन हुआ था। अप्रैल-जनवरी में जीरा का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 23% घटकर 1.88 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.44 लाख टन हुआ था।

धनिया वायदा (मई) की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह उच्च स्तर पर बंद हुईं और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। अब कीमतों के 12050-13300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 75% अधिक और जनवरी के बाद से 42% अधिक हैं जबकि निर्यात कम हो रहा है। मसाला कंपनियों ने इस साल कीमतों में गिरावट का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कीमतों में कोई कमी नहीं दिखी और अब उन्होंने अपनी खरीद शुरू कर दी है, जिससे कीमतों को समर्थन मिलेगा। बाजार में आवक हुआ है क्योंकि कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इस सप्ताह आवक बढ़कर 70000 बैग से अधिक हो गई है, जो पिछले सप्ताह 40000 बैग से कम थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात पिछले साल के 48,350 टन से 15% घटकर 41,100 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 11% अधिक है।

### अन्य कमोडिटीज

कॉटन वायदा (अप्रैल) की कीमतें पिछले सप्ताह 44100 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अब कीमतें तेजी के रूझान के साथ 42900-44100 के दायरे में कारोबार कर सकती है। वैश्विक बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट हुई है, जबकि मिलों की ओर से लगातार मांग के कारण घरेलू मंडी में कीमतें अधिक बनी हुई है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 99.5% अधिक हैं और नए साल में लगभग 29% बढ़ी है। बाजार सूत्रों के मुताबिक, घरेलू कपास की आवक इस सीजन में अब तक 25 फीसदी या 88.95 लाख गांठ कम होकर पिछले साल की तुलना में करीब 238 लाख गांठ रह गई है। यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सीजन(2022) में कपास की बुआई कुल 12.2 मिलियन एकड़ में होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है।

देश से ग्वाराम की निर्यात मांग के कारण कीमतें 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ग्वारसीड वायदा (मई) की वायदा कीमतों में उच्च स्तर से गिरावट हुई है। अब अगर कीमतें 6550 के स्तर पर सपोर्ट के साथ 6800 के रजिस्ट्रेंस स्तर को पार करती हैं तो कीमतें 7200 के स्तर तक कारोबार कर सकती हैं। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 69% अधिक हैं। तेल रिगों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 243 बढ़कर 533 हो गई है। जनवरी 2022 में ग्वाराम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 5% बढ़कर 22300 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 38.4% बढ़कर 2.64 लाख टन हुआ है।

अरंडी वायदा (मई) में पिछले सप्ताह उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण 6% से अधिक की भारी गिरावट हुई है। अब कीमतें 7360 पर रजिस्ट्रेंस के साथ 6600 के स्तर तक लुढ़क सकती है। आवक में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि इस सीजन में कीमतें अच्छी रही हैं। अधिक निर्यात मांग और कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 46% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 18% से अधिक की वृद्धि हुई है। एसईए के अनुसार, फरवरी 2022 में अरंडीमूल का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़कर 32000 टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 के लिए कुल निर्यात पिछले वर्ष के 3.90 लाख टन से लगभग 5.5% घटकर 3.60 लाख टन रह गया। इसी तरह, फरवरी 2022 में अरंडी के तेल का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 7% बढ़कर 50,200 टन हो गया, जबकि यह अप्रैल-फरवरी की अवधि के लिए 6.1 लाख टन के बराबर है।

आने वाले सीजन में कम रकबे की उम्मीद के बीच मांग बढ़ने और आवक कम होने से मेंथा ऑयल (अप्रैल) की कीमतें लगातार पांचवें सप्ताह मजबूती के साथ बंद हुईं। तत्काल रजिस्ट्रेंस 1152 के स्तर पर है और सपोर्ट 1095 पर है। कीमतों में तेजी का रूझान है और आने वाले हफ्तों में 1200 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस सीजन में मेंथा का रकबा कम रहने की उम्मीद है क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों के इस सीजन में कम रकबे में बुवाई करने की संभावना है, जबकि निर्यात और मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है।

### सर्फा

बढ़ती लागत और यूक्रेन संकट पर चिंताओं के कारण मुद्रास्फीति से बचाव के लिए सुरक्षित निवेश के रूप में मांग के कारण सोने की कीमतों में उछाल दर्ज की गई, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक नीतिगत रुख के कारण बहुत सीमित रही। एक बार जब मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने लगेगी, तो यहां तक कि फेड की आक्रामक मौद्रिक नीति के बावजूद यह सोने की कीमतों की मददगार हो सकती है। फेड की मार्च की बैठक के मिनट में नीति निर्माताओं के बीच भारी चिंता देखी गई कि मुद्रास्फीति काफी अधिक बढ़ गई है, और कई नीति निर्माताओं ने आने वाले महीनों में दरों में 50-बेसिस-पॉइंट की वृद्धि करने का समर्थन किया है। अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर मजबूत होता है और बुलियन धारण करने की अवसर लागत में वृद्धि होती है। बेंचमार्क अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड ने पिछले सत्र में तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे गैर-उपज वाले बुलियन को रखने की अवसर लागत बढ़ गई। रूस के केंद्रीय बैंक ने कहा कि बाजार की स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव के कारण वह 8 अप्रैल से वाणिज्यिक बैंकों से मोल-भाव की कीमत पर सोना खरीदेगा। 25 मार्च को, बैंक ने कहा था कि वह 30 जून तक 5,000 रूबल की निश्चित कीमत पर सोना खरीदेगा। इस घोषणा के बाद से, डॉलर के मुकाबले रूबल तेजी से मजबूत हुआ है। रूस दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक है, लेकिन फरवरी में क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के बाद देश के रिफाइनरों को लंदन के बाजार में बुलियन बेचने से रोक दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें करीब 60 डॉलर प्रति ग्राम या 1,900 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर बनी हुई हैं। इस सप्ताह में एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 50400-52900 के व्यापक दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 64000-68500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

यूरो क्षेत्र द्वारा रूसी ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से मंजूरी देने में सक्षम होने को लेकर अनिश्चितता के बीच उपभोक्ता देशों द्वारा अपने आपातकालीन भंडार से तेल की एक बड़ी मात्रा जारी करने की घोषणा से तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। चीन में कोविड-19 की एक नई लहर के कारण लॉकडाउन से तेल की मांग में कमी के कारण भी तेल की कीमतों पर दबाव है। दोनों बेंचमार्क 5% से अधिक की गिरावट के साथ 16 मार्च के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक, जोसेप बोरेल ने नाटो की एक बैठक में कहा कि रूसी कोयले पर प्रतिबंध सहित यूरोपीय संघ के नए उपाय पारित किए जा सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा करेगा। लेकिन कोयले पर प्रतिबंध तय योजना के अनुसार एक महीने बाद अगस्त के मध्य से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। चीन में, वायरस के कई प्रकोपों के कारण सबसे अधिक आबादी वाले शहर शंघाई में व्यापक तालाबंदी की गई है। चीन में मांग की स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं दिख रही है, खासकर जब हमारे पास बाजार में इतनी नई आपूर्ति है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों ने पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित 180 मिलियन बैरल तेल जारी करने में से 60 मिलियन बैरल जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 6800-7500 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें 13 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गैस भंडार में अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई है। अगले दो सप्ताह तक पश्चिमी तट पर मौसम सामान्य से अधिक ठंडा और पूरे अमेरिका में सामान्य से अधिक ठंडा रहने की संभावना है। लगातार 3 दिनों तक गिरावट के बाद एलएनजी निर्यात टर्मिनलों पर नेचुरल गैस की आवक बढ़ी। इस सप्ताह कीमतें 460-510 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।





## बेस मेटल

मांग को लेकर चिंता के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में सेवा और फैक्ट्री गतिविधि में पिछले महीने दो साल में सबसे तेज गति से गिरावट और कोविड-19 के मामलों में बढ़ती और संबंधित प्रतिबंधों से मांग प्रभावित हुई है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों द्वारा दरों में तेजी से बढ़ती को लेकर आक्रामक बयानों के बाद यदि प्रमुख करेंसियों की तुलना में डॉलर में मजबूती जारी रहती है, तो इस काउंटर पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन रूस पर अधिक प्रतिबंध के बाद रूसी आपूर्ति के बाधित होने के जोखिम से धातु की कीमतों को मदद मिल सकती है। तांबे की कीमतें 790-840 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। आपूर्ति में नरमी के बीच चीन में तांबे के कॉन्स्ट्रैट के लिए ट्रीटमेंट शुल्क दूसरी तिमाही में बढ़ सकता है। जिंक की कीमतें 340-362 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 180-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई गोदामों में धातुओं के भंडार में तेजी से गिरावट, जिससे एक्सचेंज के भौतिक रूप से डिलीवरी योग्य वायदा कॉन्ट्रैक्ट का पता चलता है, के परिणामस्वरूप कीमतों में अस्थिरता रह सकती है। यूरोप के एलएमई गोदाम में रखे 500 टन जिंक में से केवल 25 टन ही बाजार में उपलब्ध है। एल्युमीनियम की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 265-285 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कच्चे तेल की कम कीमतों और चीन में नए लॉकडाउन के कारण विकास और मांग को लेकर चिंता और अधिक ब्याज दर के माहौल से एल्युमीनियम की कीमतों पर दबाव रह सकता है। अप्रैल से जून के लिए जापानी खरीदारों को एल्युमीनियम शिपमेंट के लिए प्रीमियम 172 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया गया है, जो पिछली तिमाही से 2.8% कम है क्योंकि जापान और चीन में कमजोर मांग रूस से आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं से अधिक है। निकल की कीमतें 2300-2600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

## बुलियन स्पॉट एक्सचेंज

2018-19 के बजट में, सरकार ने देश में सोने के एक्सचेंजों की एक विनियमित प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए, वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के बीच एक चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि सेबी प्रस्तावित बुलियन एक्सचेंज की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करेगा। लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद सेबी ने 28 सितंबर 2021 को अपनी बोर्ड बैठक में सोने के स्पॉट एक्सचेंजों के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी थी। इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) ने घरेलू बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं शेयरधारिता पैटर्न को लेकर उद्योग के भागीदारों के साथ उच्च स्तरीय विचार-विमर्श कर रही हैं। सेबी के नियामक मानदंडों के अनुसार शेयरधारिता संरचना के लिए एनएसई, आईबीजेए और बुलियन उद्योग (रिफाइनेर, बुलियन डीलर, ज्वैलर, बैंक, विदेशी आपूर्तिकर्ता, फंड, एफपीआई, अन्य एमआईआई, आदि) की भागीदारी होगी।

### विश्व स्वर्ण बाजार में भारत की प्रभावशाली भूमिका को स्थापित करना

भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ सोने की वार्षिक मांग लगभग 800-900 टन होती है, और वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों के निर्धारण में भारत की कोई भूमिका नहीं होती है। भारत केवल वैश्विक स्तर पर तय कीमतों का अनुगमन करता है। बुलियन का प्रस्तावित स्पॉट एक्सचेंज सोने के लेन-देन में पारदर्शिता लाने और समय के साथ वैश्विक स्तर पर भारत को सोने की कीमतों के निर्धारणकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम करेगा। विश्व में सोने के सबसे उपभोक्ता चीन में इसी तरह का स्पॉट एक्सचेंज पहले से ही संचालित हो रहा है, जहां सभी घरेलू उत्पादन और आयातित सोना खरीदा और बेचा जाता है।

बुलियन का यह स्पॉट एक्सचेंज, जिसमें ट्रेडिंग का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और सोने की भौतिक डिलीवरी शामिल है, भारत में बुलियन का एक आकर्षक और प्रभावशाली तंत्र बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुलियन स्पॉट एक्सचेंज से कुशल और पारदर्शी घरेलू हाजिर मूल्य की प्राप्ति, सोने की गुणवत्ता, खुदरा कारोबारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत के अच्छे डिलीवरी मानक को बढ़ावा देने, वित्तीय बाजारों के साथ अधिक एकीकरण और देश में अधिक से अधिक सोने के पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। सेबी ही वॉल्टिंग, परख और सोने की गुणवत्ता और डिलीवरी मानक सहित इसका एकमात्र नियामक होगा।

इस एक्सचेंज में संपूर्ण लेनदेन को तीन चरणों में इसप्रकार विभाजित किया गया है:

### 1. भौतिक सोने से इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद में रूपांतरण

एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (ईजीआर) कहा जाएगा। प्रारंभ में ईजीआर तब बनाया जाएगा जब सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद वास्तविक सोना वॉल्ट मैनेजर के पास जमा कर दिया जाएगा।

### 2. स्टॉक एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद की ट्रेडिंग

इसके बाद ईजीआर लाभार्थी के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद ही ईजीआर की ट्रेडिंग हो सकेगी। ईजीआर को तब तक के लिए रखा जा सकता है जब तक कि वे स्थायी वैधता रखते हैं।

### 3. इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद से भौतिक सोने में रूपांतरण

अंत में, एक ईजीआर धारक ईजीआर को वापस करके वॉल्ट से सोना निकाल सकता है। निश्चित ग्राम सोने के बराबर का ईजीआर जमा होने के बाद ही भौतिक सोने को प्राप्त किया जा सकता है।

### बुलियन स्पॉट एक्सचेंज के फायदे

- प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को डिलीवरी की जाने वाली धातु की गुणवत्ता की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी।
- इसका प्रस्पेनएसई और आईबीजेए का यह सहयोग न केवल स्पॉट मार्केट सर्रीफा लेनदेन के लिए कारोबारियों को बहुप्रतीक्षित मंच प्रदान करता है।
- इससे राष्ट्रीय स्तर पर सोने के लिए मूल्य निर्धारण ढांचा तैयार होने की भी उम्मीद है।
- इस एक्सचेंज के माध्यम से कारोबारी गतिविधियों की पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही बुलियन की बेहतर कीमत की प्राप्ति में दक्षता आएगी, तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी।
- एक्सचेंज तावित ढांचा उद्योग के बी-2-बी सेगमेंट को पूरा करेगा और पूरे बुलियन तंत्र की मूल्य श्रृंखला के सभी अहम भागीदारों (डीलरों, ज्वैलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं) के लेनदेन को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे बड़े कारोबारियों की भागीदारी भी अधिक होगी।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ट्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।